

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 मार्च 2024—फाल्गुन 23, शक 1945

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024

क्रमांक F.4/1/6/0002/2023-Sec-1-35(ANH)- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत राज्य शासन एतद् द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधीन अनुसूची एक-1 एम.पी.स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल एवं दुग्ध संघों के स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करता है:-

अनुसूची- "एक"

1. एम.पी.स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल एवं भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ जबलपुर/ ग्वालियर/बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ

अनुसूची-"दो"

निःशक्तजनों के लिए पदों का चिन्हांकन

नाम:- एम.पी.स्टेट को-ऑपरेटिव फेडरेशनल लि भोपाल-

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या(6%)	चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं. सेरेब्रल पाल्सी. कुष्ठ रोग मुक्त. बौनापन. एसिट अटैक पीडित. मस्कलन डिस्टोफी(1.5%)	ऑटिज्म. बौद्धिक दिव्यांगता. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय श्रेणी	प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक/ समकक्ष पद	133	133	8	4	3	1	0	8	चिन्हांकित पदों का विवरण कार्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित
तृतीय श्रेणी	तृतीय पद संवर्ग	28	28	2	1	1	0	0	2	

नाम :- भोपाल दुग्ध संघ भोपाल

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या(6%)	चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिट अटैक पीडित, मस्कुलन डिस्ट्राफी(1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिस्टेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
तृतीय श्रेणी	तृतीय पद संवर्ग	271	271	16	7	6	3	0	17	चिन्हांकित पदों का विवरण
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य/ चौकीदार/ माली स्वीपर/अ टेन्डेंट/ कनिष्ठ वाहन	139	139	8	3	1	1	3	8	कार्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित

नाम:- इंदौर दुग्ध संघ इंदौर

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या(6%)	चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिट अटैक पीडित, मस्कुलन डिस्ट्राफी(1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिस्टेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
तृतीय श्रेणी	तृतीय पद संवर्ग	201	201	12	4	5	3	0	12	चिन्हांकित पदों का विवरण
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य/ चौकीदार/ माली स्वीपर/अ टेन्डेंट/ कनिष्ठ	77	77	5	2	1	2	0	5	कार्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित

उज्जैन दुग्ध संघ उज्जैन										
पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या(6%)	चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क	
				दृष्टि बाधित और दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं. सेरेब्रल पाल्सी. कुष्ठ रोग मुक्त. बौनापन. एसिड अटैक पीडित. मस्कुलन डिस्ट्राफी(1.5%)	ऑटिज्म. बौद्धिक दिव्यांगता. स्पेसिफिक लर्निंग डिस्टेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
तृतीय श्रेणी	तृतीय पद संवर्ग	155	155	9	4	3	2	0	17	चिन्हांकित पदों का विवरण
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य/ चौकीदार/ माली स्वीपर/अ टेन्डेंट/ कनिष्ठ वाहन	38	38	2	1	1	0	0	2	कार्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित

जबलपुर दुग्ध संघ जबलपुर

जबलपुर दुग्ध संघ जबलपुर										
पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या(6%)	चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क	
				दृष्टि बाधित और दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं. सेरेब्रल पाल्सी. कुष्ठ रोग मुक्त. बौनापन. एसिड अटैक पीडित. मस्कुलन डिस्ट्राफी(1.5%)	ऑटिज्म. बौद्धिक दिव्यांगता. स्पेसिफिक लर्निंग डिस्टेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
तृतीय श्रेणी	तृतीय पद संवर्ग	74	74	5	1	3	1	0	05	चिन्हांकित पदों का विवरण
चतुर्थ श्रेणी	भृत्य/ चौकीदार/ माली स्वीपर/अ	10	10	1	0	0	1	0	1	कार्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित

टेन्डेंट/कनिष्ठ वाहन										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ग्वालियर दुग्ध संघ ग्वालियर

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या(6%)	चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिट अटैक पीडित, मस्कुलन डिस्टोफी(1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिस्टेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
तृतीय श्रेणी	तृतीय पद संवर्ग	121	121	7	2	3	2	0	07	चिन्हांकित पदों का विवरण कार्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित
चतुर्थ श्रेणी	भृत्या/ वॉकीदार/ माली स्वीपर/ अटेन्डेंट/ कनिष्ठ वाहन	10	10	1	1	0	0	0	1	

बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ सागर

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या(6%)	चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिट अटैक पीडित, मस्कुलन डिस्टोफी(1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिस्टेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
तृतीय श्रेणी	तृतीय पद	62	62	04	0	1	3	0	4	चिन्हांकित पदों का

चतुर्थ श्रेणी	भृत्या/ वॉकीदार/ माली स्वीपर/ अटेन्डेंट/ कनिष्ठ वाहन	16	16	1	1	0	0	0	1	विवरण कार्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित
---------------	------------------------------------------------------	----	----	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

क्रमांक F.4/1/6/0002/2023-Sec-1-35(ANH)- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत राज्य शासन एतद् द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधीन अनुसूची -एक में म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल के स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करता है:-

अनुसूची- "एक"

1. म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल

अनुसूची-"दो"

निःशक्तजनों के लिए पदों का चिन्हांकन

नाम:- म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल-

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या(6%)	चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क
					इष्टि बाधित और कम इष्टि (1.5%)	बहरे और सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं. सेरेब्रल पाल्सी. कुष्ठ रोग मुक्त. बौनापन, एसिट अटैक पीडित. मस्कुलन डिस्ट्राफी(1.5%)	ऑटिज्म. बाँदिक दिव्यांगता. स्पेसिफिक लर्निंग डिस्टेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड-3 /समकक्ष पद	20	20	1	0	1	0	0	1	चिन्हांकित पदों का विवरण कार्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित
चतुर्थ श्रेणी	मृत्यु/दफ्तरी/साइरक्षक/कुक्कुट परिचारक/बुल अटेंडेंट	16	16	1	1	0	0	0	1	
संविदा	संविदा	47	47	3	1	0	1	1	3	

क्रमांक F.4/1/6/0002/2023-Sec-1-35(ANH)- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत राज्य शासन एतद् द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधीन अनुसूची -एक में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्विद्यालय जबलपुर के स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करता है:-

अनुसूची- "एक"

1. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्विद्यालय जबलपुर

अनुसूची-"दो"

निःशक्तजनों के लिए पदों का चिन्हांकन

नाम:- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्विद्यालय जबलपुर

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए 6% के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या(6%)	चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमार्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं. सेरेब्रल पाल्सी. कुष्ठ रोग मुक्त. बौनापन. एसिड अटैक पीडित. मस्कुलन डिस्ट्राफी(1.5%)	ऑटिज्म. बौद्धिक दिव्यांगता. स्पेसिफिक लर्निंग डिस्बिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
प्रथम श्रेणी (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक)	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/समकक्षा	124	124	7	2	2	3	0	7	चिन्हांकित पदों का विवरण कार्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित
द्वितीय श्रेणी (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक)	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/समकक्षा	196	196	12	4	4	4	0	12	
तृतीय श्रेणी (गैर शैक्षणिक)	गैर	203	203	12	4	3	5	0	12	

श्रेणी	शिक्षणक								
चतुर्थ श्रेणी	गैर शिक्षणक	202	202	12	4	3	3	2	12
तृतीय श्रेणी	गैर शिक्षणक	10	10	1	0	0	1	0	1
संविदा									
चतुर्थ श्रेणी	गैर शिक्षणक	13	13	1	0	0	1	0	1
संविदा									

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश कुमार एस, पदेन उपसचिव.